


Towards **Financial Freedom**



Swaraj Wealth
Towards Financial Freedom

विज़न

सबसे पसंदीदा कंपनी होना जो अपने क्लाइंट को सबसे बेहतर और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और सलाह सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराए।



मिशन

क्लाईंट के उपलब्ध संसाधनों (Resources) के साथ उनके और बिज़नेस के फ़ाइनेंशियल वैल्यू एडिशन में हेल्प करना।

स्वराज वेल्थ ही क्यों चुनें ?

टेक्स की बचत करते हुए, व्यक्ति की फेमिली और बिज़नेस की फाइनेंशियल सिक्यूरिटी, बच्चों की पढ़ाई और पर्सनल रिटायरमेंट की प्लानिंग एवं अन्य फाइनेंशियल गोल प्राप्त करने में हेल्प करना स्वराज वेल्थ का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम आपको, बेहतर एडवाइज, प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के साथ उचित इन्वेस्टमेंट और रिस्क मनेजमेंट के प्रोडक्ट्स, जो आपको और आपकी पॉकेट को सूट करें, उपलब्ध कराते हैं। स्वराज वेल्थ एक प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी है। हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्थापित किये हैं, जो हमारे क्लाइंट की संपत्ति को बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, और उत्तराधिकारी को ट्रान्सफर करने में मदद करते हैं। वेल्थ मनेजमेंट, रिस्क मनेजमेंट, जायदाद, वसीयत एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग इत्यादि हमारी प्रोसेस का हिस्सा हैं।

“Never spend your money before you have it.”

- Thomas Jefferson

CHAIRMAN'S WORDS...



प्रिय पाठकगण,

स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट में आपका स्वागत है।

जब आप इस ब्रोशर को पढ़ रहे हैं तब भी स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट की टीम आपकी वेल्थ को मैनेज करने की दिशा में आपके लिए कड़ी मेहनत कर रही है, आपकी बेहतर सर्विस के लिए प्रयासरत है।

हमारी वेल्थ मैनेजमेंट (Wealth Management) की एक्सपर्ट टीम आपको वेल्थ क्रियेशन के माध्यम से आपके फ़ाइनेंशियल गोल प्राप्त करने में हेल्प करती रही है। अब म्यूचुअल फंड के साथ वेल्थ क्रियेशन के और भी महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से अपनी निवेश की रकम ड्राइवर्सिफ़ाई करके प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। इनका विवरण अंदर विस्तार से दिया गया है।

हर व्यक्ति की फ़ाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट (Risk Management)। हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में या उसके बिजनेस में हर मोड़ पर कोई न कोई फ़ाइनेंशियल रिस्क जरूर जुड़ी होती है जिसके होने पर कोई नुकसान होने की संभावना होती है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपकी जरूरत के अनुसार आपकी फ़ाइनेंशियल रिस्क का आंकलन करके, अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जरिये उसको कम करने में आपकी सहायता करते हैं।

वेल्थ मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेस जैसे फ़ाइनेंस की सुविधा, मिशन मनी बेंक, जायदाद, वसीयत एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग इत्यादि भी आपके लिए विशेष उपलब्ध हैं। स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट में हमारा फोकस हमेशा से अपने क्लाइंट को फ़ाइनेंशियल पीस (Financial Peace) प्रदान करना है।

स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट का डायरेक्टर होने के नाते मैं मानता हूँ कि हमारे क्लाइंट एक बेहतर तरीके से उनकी वेल्थ मैनेज होने के अधिकारी हैं। मैं उन्हें यह अनुभव महसूस कराने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।

आशा करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो।

आपका शुभेक्ष

अजय कुमार जैन
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर,
स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट प्रा. लि.

“Don't save what is left after spending... but spend what is left after saving.”
- Warren Buffett

स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट (एक सोल्यूशन प्रोवाइडर)

स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र मुख्यतः वेल्थ मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग करना है। एक सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के रूप में हमारी जिम्मेदारी वर्तमान और भविष्य की प्लानिंग तथा अनिश्चितता के बीच पुल का निर्माण करना है। हमारी टीम क्लाइंट की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को एनालाइज करती है, और उन्हें उनके लिए आवश्यक सोल्यूशंस और सर्विसेस लेने के लिए प्रेरित करती है।



हमारे सर्विस ग्रुप्स

इंडिविजुअल (व्यक्ति) क्लाइंट

हर उम्र के सभी प्रोफेशन के भारतीय व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह (Resident Indian)	अनिवासी भारतीय व्यक्ति (NRI)	भारत में बसे विदेशी व्यक्ति (FOREIGN NATIONALS)
---	------------------------------	---

नॉन- इंडिविजुअल (गैर व्यक्ति/संस्थागत) क्लाइंट

प्रोप्राइटरशिप बिजनेस (Proprietorship Business)	नॉन प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन (Non-Profit Organization)	कार्पोरेट्स (Corporate)
कंपनी (Company)	स्टार्टअप (Proprietorship Business)	सोसाइटी क्लब (Society Club)
एल.एल.पी. (LLP)	एफ.पी.आई (FPI)	एफ.आई.आई (FII)
ट्रस्ट (Trust)	एच.यू.एफ (HUF)	प्राइवेट/पार्टनरशिप फर्म (Firm)

Financial Planning (फाइनेंशियल प्लानिंग)

किसी व्यक्ति के उपलब्ध फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करके उसकी लाइफ के फाइनेंशियल गोल को पाने की प्रोसेस को फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है।

- CHILDREN'S HIGHER EDUCATION PLANNING (बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग)
- MARRIAGE PLANNING (शादी की प्लानिंग)
- RETIREMENT PLANNING (रिटायरमेंट की प्लानिंग)
- FOREIGN TOUR PLANNING (विदेश यात्रा की प्लानिंग)
- REAL ESTATE PLANNING (रियल स्टेट की प्लानिंग)
- FINANCIAL PROTECTION PLANNING (फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की प्लानिंग)



“A penny saved is a penny earned.”

- Benjamin Franklin

Wealth Management

(वेल्थ मेनेजमेंट)

वेल्थ मेनेजमेंट के लिए
उपयुक्त प्रोडक्ट्स



और अधिक जानकारी
के लिए विजिट करें :

www.swarajwealth.com

या call करें 9630054050

- **Mutual Funds (म्यूचुअल फंड)** – सेबी (SEBI) द्वारा रेगुलटेड इनवेस्टमेंट का तरीका जो मार्केट लिंकड होने के कारण पारंपरिक इनवेस्टमेंट के साधनों की अपेक्षा बेहतर रिटर्न्स देने में सक्षम है। इसमें इनवेस्टमेंट करने के पहले सतर्कता से प्लानिंग की आवश्यकता होती है।
- **Bonds (बांड्स)** – सरकार और प्राइवेट कंपनी द्वारा इश्यू किए गए बांड्स में निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर निवेश किया जा सकता है।
- **Corporate FDs (कॉर्पोरेट एफ डी)** – कंपनी द्वारा निश्चित समय और निश्चित ब्याज दर पर फिक्स डिपॉजिट की सुविधा मिलती है जो पारंपरिक एफ डी से बेहतर रिटर्न देने में सक्षम होती है।
- **Mutual Fund PMS (म्यूचुअल फंड PMS)** – म्यूचुअल फंड-पोर्टफोलियो मेनेजमेंट सर्विस के जरिये इन्वेस्टर, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड की विभिन्न स्कीम का पोर्टफोलियो बनाते हैं, की विशेषज्ञता का फायदा उठा कर भविष्य के लिए बड़ी पूंजी बना सकता है।
- **Equity PMS (इक्विटी PMS)** – इक्विटी-पोर्टफोलियो मेनेजमेंट सर्विस के जरिये इन्वेस्टर, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, जो विभिन्न शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, की विशेषज्ञता का फायदा उठा कर भविष्य के लिए बड़ी पूंजी बना सकता है।
- **NPS (एन पी एस)** – यह सरकार द्वारा प्रोमोटेड रिटायरमेंट प्लानिंग योजना है। NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में इन्वेस्ट करने से रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम एकत्रित हो सकती है। साथ ही 80CCD सेक्शन के तहत टेक्स में बचत भी की जा सकती है।
- **P2P Lending (पी 2 पी लेंडिंग)** – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेगुलेशंस के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, पियर टू पियर लेंडिंग (Peer To Peer Lending), जिसमें ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले व्यक्तियों को मिलाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिये इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर, मीडियम टर्म में, सामान्य ब्याज दर से ज्यादा (15 से 18% सालाना) ब्याज पाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
- **Tax Saving Instruments (टेक्स सेविंग इन्स्ट्रुमेंट्स)** – इन्कम टेक्स डिपार्टमेंट के प्रावधान 80C, 80D, 80CCD आदि के अंतर्गत इनवेस्टमेंट के इन्स्ट्रुमेंट्स हैं जो टेक्स सेविंग के साथ रिटर्न ज्यादा देते हैं या/और इश्योरेंस भी देते हैं, जैसे ईएलएसएस (ELSS), पेंशन फंड्स, यूएलआई (ULIP), इन्श्योरेंस पेंशन प्लान, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance), टर्म लाइफ इन्श्योरेंस (Term Insurance) इत्यादि।

“Personal Finance is 80% behavior and 20% knowledge.”

Risk Management (रिस्क मैनेजमेंट)

फ़ाईनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए
प्रयुक्त होने वाले प्रोडक्ट्स

और अधिक जानकारी
के लिए विज़िट करें :

www.swarajwealth.com

या call करें 9630054050



जीवन बीमा (Life Insurance) और हेल्थ इन्श्योरेंस (Health Insurance), तथा जनरल इन्श्योरेंस (General Insurance) – ये तीन मुख्य प्रकार के इन्श्योरेंस होते हैं जिनकी उपयोगिता रिस्क मैनेज करने के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है।

“इन्श्योरेंस उस समय ले लेना चाहिए जब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब कंपनी आपको इन्श्योरेंस नहीं दे पाएगी।”

Life Insurance (जीवन बीमा)

किसी व्यक्ति के असमय इस दुनिया से चले जाने पर उसके द्वारा की जा रही आमदनी की भरपाई की लिए जीवन बीमा कराया जाता है। ताकि पीछे छूटी फेमिली को फ़ाईनेंशियल सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिल सके। उसके सपनों को पूरा किया जा सके। इसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स की छूट मिलती है।

लाइफ इन्श्योरेंस मुख्यतः 3 तरह के होते हैं—

- 1. Term Insurance (टर्म इन्श्योरेंस)** – टर्म इन्श्योरेंस प्लान के तहत क्लार्ईट को कम से कम प्रीमियम के भुगतान पर अधिक से अधिक इन्श्योरेंस कवर मिल जाता है।
- 2. Traditional Insurance (ट्रेडिशनल इन्श्योरेंस)** – (मनी बक और एंडोमेंट) – मनी बक इन्श्योरेंस प्लान में इन्श्योरेंस के साथ नियत बोनस और निश्चित अंतराल पर रकम वापस मिल जाती है और एंडोमेंट प्लान में इन्श्योरेंस के साथ नियत बोनस भी मेच्योरिटी पर मिल जाता है।
- 3. Unit Linked Insurance Plan (ULIP) (यूलिप)** – यूलिप एक ऐसा इन्श्योरेंस प्लान है जिसमें इन्श्योरेंस के साथ इनवेस्ट की गई रकम पर मार्केट लिंकड प्रॉफिट भी मिलने की संभावना होती है।

Health Insurance (हेल्थ इन्श्योरेंस)

दुर्घटना या बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पर लगने वाले खर्चों को अपनी जेब से वहन न करना पड़े इसके लिए मेडिकल इन्श्योरेंस कराया जाना चाहिए। इसमें सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स की छूट मिलती है।

“If a child, a spouse, a life partner or a parent depends of you
and your income, you need insurance.”
- Suze Orman



General Insurance (जनरल इश्योरेंस)

असमय और अनपेक्षित होने वाली दुर्घटना जैसे आगजनी, चोरी, या संपत्ति के नुकसान से होने वाले फ़ाइनेंशियल लॉस की भरपाई के लिए जनरल इश्योरेंस का होना जरूरी है।

- **Fire and Burglary & Loss of property (आगजनी चोरी आदि)** – किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का नुकसान, आगजनी या चोरी के द्वारा हो तो उस फ़ाइनेंशियल लॉस की भरपाई जनरल इश्योरेंस से की जा सकती है।
- **Group Insurance (गुप इश्योरेंस)** – इसके अंतर्गत कुछ व्यक्तियों के समूह का लाइफ इश्योरेंस और हेल्थ इश्योरेंस एक साथ किया जा सकता है।
- **Motor Insurance (मोटर इश्योरेंस)** – आपके वाहन का या उसके कारण आपको या किसी तीसरी पार्टी को होने वाले फ़ाइनेंशियल लॉस की आपूर्ति के लिए मोटर बीमा कराया जाना चाहिए।
- **Marine Insurance (मरीन इश्योरेंस)** – व्यापारिक आवागमन के दौरान होने वाले संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए मरीन इश्योरेंस कराया जाना चाहिए।
- **Travel Insurance (ट्रैवल इश्योरेंस)** – देश या विदेश में यात्रा के दौरान होने वाले संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए ट्रैवल इश्योरेंस कराया जाना चाहिए।
- **Accidental Insurance (एक्सीडेंटल इश्योरेंस)** – आकस्मिक दुर्घटना से होने वाले संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए एक्सीडेंटल इश्योरेंस कराया जाना चाहिए।
- **Critical Illness Insurance (क्रिटिकल इलनेस इश्योरेंस)** – खतरनाक बीमारियों के होने पर संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए क्रिटिकल इलनेस होने से पहले इश्योरेंस कराया जाना चाहिए।
- **Cancer Care Insurance (कैंसर केयर इश्योरेंस)** – किसी भी तरह के कैंसर के होने पर संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए बीमारी होने से पहले कैंसर केयर इश्योरेंस कराया जाना चाहिए।
- **Liability Insurance - Professional Indemnity Insurance (लाएबिलिटी इश्योरेंस – प्रोफ़ेशनल इंडेमनिटी)** – प्रोफ़ेशनल जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, इंजीनियर आदि के लिए लाएबिलिटी इश्योरेंस अर्थात् प्रोफ़ेशनल इंडेमनिटी इश्योरेंस बहुत उपयोगी होता है। प्रोफ़ेशनल इंडेमनिटी इश्योरेंस होने से प्रोफ़ेशनल्स अपने क्लाइंट को होने वाले संभावित फ़ाइनेंशियल लॉस की भरपाई देने से बच जाते हैं।

Claim Management Services (क्लेम मेनेजमेंट सर्विस)

स्वराज वेल्थ के क्लाइंट होने के नाते आपको क्लेम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्पेशल क्लेम मेनेजमेंट सर्विस की टीम आपकी सेवा में तत्पर है।

“Take insurance when you don't need it,
because when you need it, you won't get it.”



Value Added Service

वेल्थ एडेड सर्विस

Financial Health Check Ups

फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप



और अधिक जानकारी
के लिए विज़िट करें :

www.swarajwealth.com

या call करें 9630054050

- **Financial Planning Checkup** – फाइनेंशियल प्लानिंग चेकअप – इसके जरिये ये चेक किया जा सकता है कि बच्चों की एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट आदि की प्लानिंग ठीक तरह हुई है या नहीं।
- **Asset Allocation Checkup** – एसेट एलोकेशन चेकअप – इसके जरिये ये चेक किया जा सकता है कि आपके फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए आपने उपलब्ध असेट्स को सही अनुपात में एलोकेट किया है या नहीं।
- **Portfolio Health Checkup** – पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप – इसके जरिये ये चेक किया जा सकता है कि यदि आपने पहले से शेयर या म्यूचुअल फंड का कोई पोर्टफोलियो पहले से बना रखा है, वो आपके गोल प्राप्त करने के लिए कितना सहायक है।
- **Tax Planning Checkup** – टेक्स प्लानिंग चेकअप – इसके जरिये ये चेक किया जा सकता है कि टेक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट किए जाने वाले इन्स्ट्रुमेंट्स, टेक्स सेविंग के साथ, फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने में कितने उपयोगी होंगे।

- **Risk Management Checkup** – रिस्क मैनेजमेंट चेकअप – असमय और अनपेक्षित होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए आप कितने तैयार हैं, इसका चेकअप समय रहते कर लिया जाना चाहिए।
- **Estate Planning & Will Creation Checkup** – जायदाद, वसीयत एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग का चेकअप – समय रहते कर लेना उचित होता है, ताकि असमय मृत्यु होने पर आपकी संपत्ति सही हाथों में पहुँच सके।



Estate Planning, Will and Succession Planning

जायदाद, वसीयत एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग

- जायदाद एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग के जरिये आप ये सुनिश्चित करते हैं कि कैसे, आपकी संपत्ति को सुरक्षित, संरक्षित करते हुए मैनेज किया जावे कि आपके नहीं रहने के बाद वह सही हाथों में पहुँच जावे।
- वसीयत और जायदाद की प्लानिंग – अंतिम वसीयत बहुत ही पावरफुल दस्तावेज होता है। ये ध्यान रखना चाहिए की अंतिम वसीयत जायदाद प्लानिंग का एक हिस्सा है, ना कि पूरी जायदाद प्लानिंग। एक विस्तृत जायदाद प्लान करना वसीयत करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

स्वराज वेल्थ की बहुत ही यूनिक सर्विस में से एक सर्विस है जायदाद, वसीयत एवं उत्तराधिकार की प्लानिंग। इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम आपके सेवा में सदैव उपलब्ध है।

“Money is a terrible master but an excellent servant.”

- P.T. Barnum



Peace of Mind & Financial Peace

(पीस ऑफ माइंड) और
फ़ाईनेंशियल पीस (आर्थिक शांति)

स्वराज वेल्थ मैनेजमेंट में हम हमेशा हमारे क्लाइंट की तरफ खड़े होते हैं। यदि दुर्भाग्यवश वे इस दुनिया में नहीं हैं तो हमारी टीम उस व्यक्ति के इनवेस्टमेंट और इंश्योरेंस के क्लैम से संबन्धित सभी कागजात एकत्र करके फेमिली के सदस्यों के पास पहुंचा देती है। एवं उन्हें गाइड करते हैं कि क्लैम कैसे लेना है और नाम का ट्रान्समिशन कैसे करना है। हमारा एक मात्र उद्देश्य हमारे क्लाइंट को पीस ऑफ माइंड (मानसिक शांति) प्रदान करना और फेमिली मेम्बर्स को फ़ाईनेंशियल पीस (आर्थिक शांति)।



और अधिक जानकारी
के लिए विज़िट करें :

www.swarajwealth.com

या call करें 9630054050

Mission Money Back (मिशन मनी बक)

यदि आपके पास कोई ऐसे निवेश हैं जो खो गए, भूल गए या ब्लॉक कर दिये गए हों जैसे फिजिकल शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बाण्ड्स और डिपॉज़िट, इंश्योरेंस, पोस्टल सेविंग्स, बैंक एकाउंट इत्यादि, तो उन्हें वापस पाने में हमारी टीम आपकी सहायता के लिए तत्पर है।



**To be rich, be fearfull when other are greedy and
be greedy when others are fearfull.**

- Warren Buffett



NRI (एन आर आई) सर्विसेस

अनिवासी भारतीय (एन आर आई) इन्वेस्टर्स की इनवेस्टमेंट संबन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वराज वेल्थ में हमने स्पेशल सेल स्थापित की है। क्योंकि उनकी आवश्यकताएँ कुछ अलग होती हैं। जैसे उनके लिए विशेष तौर पर टेक्सेशन के नियम अलग होते हैं।

एक NRI को क्या चाहिए

- जिस देश में वे निवास कर रहे हैं, उससे बेहतर इनवेस्टमेंट में ग्रोथ
- करेंसी की कीमतों में बदलाव से बचाव / फ़ायदा
- रेपेट्रीएबल (Repatriable) इनवेस्टमेंट (कोई भी फ़ाइनेंशियल एसेट जो विदेश में कमाई गई है उसे भारत में निवेश किया जा सके और वापस मूल देश में वापस ले जाया जा सके।)

Private Wealth Office (प्राइवेट वेल्थ ऑफिस)

भारत में एचएनआई (HNI) और अल्ट्रा एचएनआई (UHNI) फ़ैमिली चाहते हैं की उनकी संपत्ति को मनेज करने के लिए उनका निजी ऑफिस हो ताकि उनकी प्राइवेटि मेंटेन रह सके।

स्वराज वेल्थ में हमारी डेडीकेटेड एक्सपर्ट टीम उनकी जरूरत के अनुसार उनका निजी वैल्थ ऑफिस सेट अप करने में मदद करती है।

फ़ाइनेंस

यह सुविधा भी स्वराज वेल्थ के क्लाइंट्स के लिए खास उपलब्ध है जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेन्स्ट सेक्यूरिटी, लोन अगेन्स्ट म्यूचुअल फंड लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी इत्यादि। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपके लिए सबसे बेहतर लोन उपलब्ध कराने में सक्षम है। P2P पर भी विशेष सलाह उपलब्ध है।

“Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.”

- Benjamin Franklin

वेल्थ मेनेजमेंट में स्वराज वेल्थ के म्यूचुअल पार्टनर्स



रिस्क मेनेजमेंट में स्वराज वेल्थ के इंश्योरेंस पार्टनर्स



“It's not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for your, and how many generations you keep it for.”
- Robert Kiyosaki

WE ARE ONLINE



स्वराज वेल्थ मनेजमेंट की वेबसाइट है www.swarajwealth.com इस वेबसाइट पर सभी यूजर को यूनिक आई डी और पास-वर्ड दिया जाता है जिसके जरिये वे अपने इनवेस्टमेंट की अपटुडेट वेलुएशन ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन सभी तरह के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहीं पर वे म्यूचुअल फंड के अलावा और भी एसेट में किए गए ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल को ट्रैक करने की सुविधा भी यहीं पर उपलब्ध है। इसके अलावा इनवेस्टमेंट से संबन्धित कई तरह के एनालिसिस किए जा सकते हैं।

ये सारी वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाएं हमने अपने यूजर्स को उनके एंड्राइड फोन पर मोबाइल एप की जरिये उपलब्ध कराई हैं। प्ले स्टोर से स्वराज वेल्थ का एप डाउन लोड किया जा सकता है।

अभी डाऊनलोड करें –



वेबसाइट



मोबाइल एप



ऑफिस एड्रेस

आवश्यकता पड़ने पर स्वराज वेल्थ आपके लिए कुछ और वैल्यू एडेड सर्विस और प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में अवश्य शामिल करेंगे।



Swaraj Wealth

Towards Financial Freedom

1st Floor, Kashi Tower, Ekta Chowk, MR-4,
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.) - 482002

☎ +91 761 4078625, 9630054050

✉ swarajwealth@gmail.com, www.swarajwealth.com